



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 727 राँची, शुक्रवार,

27 जुलाई, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

23 जुलाई 2018

संख्या-03नि0प0-29/2016 रा0नि0आ0 1186.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क,

सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पश्चिमी सिंहभूम	XXII पश्चिमी सिंहभूम-03	सविता मुण्डा, ग्राम-हुडागंदा, वार्ड नं0-08, पंचायत-हुडागंदा, पो0-कराईकेला, थाना-कराईकेला	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXII पश्चिमी सिंहभूम-05	रोहित प्रधान, ग्राम-हथिया, पंचायत-हथिया, प्रखण्ड-चक्रधरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XXII पश्चिमी सिंहभूम-05	सपन बिहारी साहु, ग्राम-केंदो, पंचायत-केंदो, प्रखण्ड-चक्रधरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XXII पश्चिमी सिंहभूम-06	प्रेम चन्द्र जामुदा, ग्राम-गुलकेड़ा, पंचायत-गुलकेड़ा, प्रखण्ड-चक्रधरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XXII पश्चिमी सिंहभूम-08	फुलकुमारी मुण्डारी, ग्राम-सेगईसाई, वार्ड नं0-03, पंचायत-गोलमुण्डा, पो0-लोंजो (सोनुवा), थाना-सोनुवा, प्रखण्ड-चक्रधरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XXII पश्चिमी सिंहभूम-08	मेनका सामाड, ग्राम-बनजीरा, वार्ड नं0-03, पंचायत-गोलमुण्डा, पो0-सोनुवा, थाना-सोनुवा, प्रखण्ड-चक्रधरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XXII पश्चिमी सिंहभूम-12	रामेश्वर रौतिया, ग्राम-फुलवारी, पंचायत-मकरण्डा, प्रखण्ड-मनोहरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XXII पश्चिमी सिंहभूम-12	रोहित महतो, ग्राम-मेदासाई, पंचायत-मनोहरपुर पूर्वी प्रखण्ड-मनोहरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		XXII पश्चिमी सिंहभूम-13	दुर्गा करुवा, पंचायत-किरीबुरु पश्चिमी, प्रखण्ड-नोवामुण्डा, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

10	XXII पश्चिमी सिंहभूम-13	बसन्ती देवी, ग्राम-गुवा, पंचायत-गुवा पूर्वी, प्रखण्ड-नोवामुण्डी, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XXII पश्चिमी सिंहभूम-13	शैलेन्द्र गोच्छाईत, ग्राम-सेवानगर गुवा, पंचायत-गुवा पूर्वी, प्रखण्ड-नोवामुण्डी, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XXII पश्चिमी सिंहभूम-15	नन्दी बारी, ग्राम-पेरतोल, पो0-पुरनापानी, पंचायत-पुरनापानी, प्रखण्ड-टोन्टो, थाना-टोन्टो, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XXII पश्चिमी सिंहभूम-15	पातोर बारी, ग्राम-सेमरा, पो0-टोन्टो, पंचायत-सिरिंगेसया, प्रखण्ड-टोन्टो, थाना-टोन्टो, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XXII पश्चिमी सिंहभूम-16	आसमान सुन्डी, ग्राम-छोटा लागिया, प्रखण्ड-खूंटपानी, पंचायत-बड़ा लागिया, पो0-बड़ा लागिया, थाना-मुफसिल, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XXII पश्चिमी सिंहभूम-16	खीरेन्द्र जारिका, ग्राम-कुम्हारटोला, पंचायत-मटकोबेड़ा, पो0-पन्द्राशाली, प्रखण्ड-खूंटपानी, थाना-मुफसिल, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XXII पश्चिमी सिंहभूम-16	सामुचरण हेम्ब्रेम, ग्राम-मटकोबेड़ा, पंचायत-मटकोबेड़ा, पो0-पन्द्राशाली, प्रखण्ड-खूंटपानी, थाना-मुफसिल, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XXII पश्चिमी सिंहभूम-17	मोहन सिंह होनहागा, ग्राम-कोटसोना, प्रखण्ड-खूंटपानी, पंचायत-लोहरदा, पो0-चक्रधरपुर, थाना-मुफसिल, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018

18	XXII पश्चिमी सिंहभूम-17	राम होनहागा, ग्राम-पुरुनिया, प्रखण्ड-खूंटपानी, पंचायत-बड़ा लागिया, पो0-बड़ा लागिया, थाना-मुफसिल, प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	XXII पश्चिमी सिंहभूम-19	अश्विनी सावैया, ग्राम-गुन्डीपुवा, पो0-सिंहपोखरिया, प्रखण्ड-सदर चाईबासा, पंचायत-हरिला, थाना-मुफफासिल, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	XXII पश्चिमी सिंहभूम-19	जतरू कुजूर, ग्राम-छोटा मोदी, पो0-बरकुन्डिवा, प्रखण्ड-सदर चाईबासा, पंचायत-कुरसी, थाना-मुफफासिल, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XXII पश्चिमी सिंहभूम-19	सुशील मुरारका, ग्राम-न्यू कॉलोनी टूंगरी, पो0-चाईबासा, प्रखण्ड-सदर, पंचायत-मटकमहातु, थाना-मुफफासिल, जिला-प0सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XXII पश्चिमी सिंहभूम-20	सिन्धया सरोज तामसोय, ग्राम-नवागाँव, पो0-नवागाँव, प्रखण्ड-झींकपानी, पंचायत-नवागाँव, थाना-झींकपानी, जिला-प0सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	XXII पश्चिमी सिंहभूम-21	विनोद सावैयां, ग्राम-बिंगबुरु, पो0-चिटीमिटी, प्रखण्ड-ताँतनगर, थाना-मंझारी, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	XXII पश्चिमी सिंहभूम-21	शीतल कुमार पुरती, ग्राम-सिदमा बारुसाई, पो0-खेड़ियाटांगर, प्रखण्ड-ताँतनगर, पंचायत-टाँगर पोखरिया, थाना-मंझारी, जिला-प0 सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

25	XXII पश्चिमी सिंहभूम-25	मंजु लागुरी, ग्राम-मसाविला, पंचायत-गुमरिया, प्रखण्ड-जगन्नाथपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	XXII पश्चिमी सिंहभूम-26	घासीराम नायक, ग्राम-बेड़ामुन्दुई, पंचायत-बेड़ामुन्दुई, प्रखण्ड-कुमारडुंगी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	XXII पश्चिमी सिंहभूम-26	रेन्सो तामसोय, ग्राम-कुमिरता, पंचायत-कुमिरता, प्रखण्ड-कुमारडुंगी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),

उप निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
